





PART A – PHYSICS

1. Two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 240 m high with initial speed of 10 m/s and 40 m/s respectively. Which of the following graph best represents the time variation of relative position of the second stone with respect to the first ?

(Assume stones do not rebound after hitting the ground and neglect air resistance, take  $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

(The figures are schematic and not drawn to scale)







भाग A – भौतिक विज्ञान

1. किसी 240 m ऊँची चोटी के एक किनारे से, दो पत्थरों को एकसाथ ऊपर की ओर फेंका गया है, इनकी प्रारंभिक चाल क्रमशः 10 m/s तथा 40 m/s है, तो, निम्नांकित में से कौनसा ग्राफ (आलेख) पहले पत्थर के सापेक्ष दूसरे पत्थर की स्थिति के समय विचरण (परिवर्तन) को सर्वाधिक सही दर्शाता है ?

(मान लीजिए कि, पत्थर जमीन से टकराने के पश्चात ऊपर की ओर नहीं उछलते हैं तथा वायु का प्रतिरोध नगण्य है, दिया है  $g = 10 \text{ m/s}^2$ )


(यहाँ ग्राफ केवल व्यवस्था आरेख हैं और स्केल के अनुसार नहीं हैं)



2. The period of oscillation of a simple pendulum is  $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ . Measured value of  $L$  is 20.0 cm known to 1 mm accuracy and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 s using a wrist watch of 1s resolution. The accuracy in the determination of  $g$  is :

- (1) 2%
- (2) 3%
- (3) 1%
- (4) 5%

3.



Given in the figure are two blocks A and B of weight 20 N and 100 N, respectively. These are being pressed against a wall by a force  $F$  as shown. If the coefficient of friction between the blocks is 0.1 and between block B and the wall is 0.15, the frictional force applied by the wall on block B is :


- (1) 100 N
- (2) 80 N
- (3) 120 N
- (4) 150 N

2. किसी सरल लोलक का आवर्त,  $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$  है।

$L$  का मापित मान 20.0 cm है, जिसकी यथार्थता 1 mm है। इस लोलक के 100 दोलनों का समय 90 s है, जिसे 1s विभेदन की घड़ी से नापा गया है। तो,  $g$  के निर्धारण में यथार्थता होगी :

- (1) 2%
- (2) 3%
- (3) 1%
- (4) 5%

3.



यहाँ आरेख में दो ब्लॉक (गुटके) A और B दर्शाये गये हैं जिनके भार क्रमशः 20 N तथा 100 N हैं। इन्हें, एक बल  $F$  द्वारा किसी दीवार पर दबाया जा रहा है। यदि घर्षण गुणांक का मान, A तथा B के बीच 0.1 तथा B और दीवार के बीच 0.15 है तो, दीवार द्वारा ब्लॉक B पर लगा बल होगा :

- (1) 100 N
- (2) 80 N
- (3) 120 N
- (4) 150 N

4. A particle of mass  $m$  moving in the  $x$  direction with speed  $2v$  is hit by another particle of mass  $2m$  moving in the  $y$  direction with speed  $v$ . If the collision is perfectly inelastic, the percentage loss in the energy during the collision is close to :

- (1) 44%
- (2) 50%
- (3) 56%
- (4) 62%

5. Distance of the centre of mass of a solid uniform cone from its vertex is  $z_0$ . If the radius of its base is  $R$  and its height is  $h$  then  $z_0$  is equal to :

- (1)  $\frac{h^2}{4R}$
- (2)  $\frac{3h}{4}$
- (3)  $\frac{5h}{8}$
- (4)  $\frac{3h^2}{8R}$

4.  $x$ -दिशा में  $2v$  चाल से चलते हुए  $m$  द्रव्यमान के एक कण से,  $y$ -दिशा में  $v$  वेग से चलता हुआ  $2m$  द्रव्यमान का एक कण, टकराता है। यदि यह संघट्ट (टक्कर) पूर्णतः अप्रत्यास्थ है तो, टक्कर के दौरान ऊर्जा का क्षय (हानि) होगा :

- (1) 44%
- (2) 50%
- (3) 56%
- (4) 62%

5. किसी एकसमान ठोस शंकु के द्रव्यमान केन्द्र की उसके शीर्ष से दूरी  $z_0$  है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या  $R$  तथा शंकु की ऊँचाई  $h$  हो तो  $z_0$  का मान निम्नांकित में से किसके बराबर होगा ?

- (1)  $\frac{h^2}{4R}$
- (2)  $\frac{3h}{4}$
- (3)  $\frac{5h}{8}$
- (4)  $\frac{3h^2}{8R}$

6. From a solid sphere of mass  $M$  and radius  $R$  a cube of maximum possible volume is cut. Moment of inertia of cube about an axis passing through its center and perpendicular to one of its faces is :

(1)  $\frac{MR^2}{32\sqrt{2}\pi}$

(2)  $\frac{MR^2}{16\sqrt{2}\pi}$

(3)  $\frac{4MR^2}{9\sqrt{3}\pi}$

(4)  $\frac{4MR^2}{3\sqrt{3}\pi}$

7. From a solid sphere of mass  $M$  and radius  $R$ , a spherical portion of radius  $\frac{R}{2}$  is removed, as shown in the figure. Taking gravitational potential  $V=0$  at  $r=\infty$ , the potential at the centre of the cavity thus formed is :

( $G = \text{gravitational constant}$ )



(1)  $-\frac{GM}{2R}$

(2)  $-\frac{GM}{R}$

(3)  $-\frac{2GM}{3R}$

(4)  $-\frac{2GM}{R}$

6. किसी ठोस गोले का द्रव्यमान  $M$  तथा इसकी त्रिज्या  $R$  है। इसमें से अधिकतम संभव आयतन का एक क्यूब (घन) काट लिया जाता है। इस क्यूब का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, यदि, इसकी घूर्णन-अक्ष, इसके केन्द्र से होकर गुजरती है तथा इसके किसी एक फलक के लम्बवत् है ?

(1)  $\frac{MR^2}{32\sqrt{2}\pi}$

(2)  $\frac{MR^2}{16\sqrt{2}\pi}$

(3)  $\frac{4MR^2}{9\sqrt{3}\pi}$

(4)  $\frac{4MR^2}{3\sqrt{3}\pi}$

7. एक ठोस गोले का द्रव्यमान  $M$  तथा त्रिज्या  $R$  है। इससे  $\frac{R}{2}$  त्रिज्या का एक गोलीय भाग, आरेख में दर्शाये गये अनुसार काट लिया जाता है।  $r=\infty$  (अनन्त) पर गुरुत्वीय विभव के मान  $V$  को शून्य ( $V=0$ ) मानते हुए, इस प्रकार बने कोटर (कैविटी) के केन्द्र पर, गुरुत्वीय विभव का मान होगा :

( $G = \text{गुरुत्वीय स्थिरांक है}$ )



(1)  $-\frac{GM}{2R}$

(2)  $-\frac{GM}{R}$

(3)  $-\frac{2GM}{3R}$

(4)  $-\frac{2GM}{R}$

8. A pendulum made of a uniform wire of cross sectional area  $A$  has time period  $T$ . When an additional mass  $M$  is added to its bob, the time period changes to  $T_M$ . If the Young's modulus of the material of the wire is  $Y$  then  $\frac{1}{Y}$  is equal to :

( $g = \text{gravitational acceleration}$ )

(1)  $\left[ \left( \frac{T_M}{T} \right)^2 - 1 \right] \frac{A}{Mg}$

(2)  $\left[ \left( \frac{T_M}{T} \right)^2 - 1 \right] \frac{Mg}{A}$

(3)  $\left[ 1 - \left( \frac{T_M}{T} \right)^2 \right] \frac{A}{Mg}$

(4)  $\left[ 1 - \left( \frac{T}{T_M} \right)^2 \right] \frac{A}{Mg}$

9. Consider a spherical shell of radius  $R$  at temperature  $T$ . The black body radiation inside it can be considered as an ideal gas of photons with internal energy per unit volume  $u = \frac{U}{V} \propto T^4$  and pressure  $p = \frac{1}{3} \left( \frac{U}{V} \right)$ . If the shell now undergoes an adiabatic expansion the relation between  $T$  and  $R$  is :

(1)  $T \propto e^{-R}$

(2)  $T \propto e^{-3R}$

(3)  $T \propto \frac{1}{R}$

(4)  $T \propto \frac{1}{R^3}$

8. किसी एकसमान तार को अनुप्रस्थकाट का क्षेत्रफल 'A' है। इससे बनाये गये एक लोलक का आवर्तकाल  $T$  है। इस लोलक के गोलक से एक अतिरिक्त  $M$  द्रव्यमान जोड़ देने से लोलक का आवर्तकाल परिवर्तित होकर  $T_M$  हो जाता है। यदि इस तार के पदार्थ का यंग गुणांक 'Y' हो तो  $\frac{1}{Y}$  का मान होगा :

( $g = \text{गुरुत्वीय त्वरण}$ )

(1)  $\left[ \left( \frac{T_M}{T} \right)^2 - 1 \right] \frac{A}{Mg}$

(2)  $\left[ \left( \frac{T_M}{T} \right)^2 - 1 \right] \frac{Mg}{A}$

(3)  $\left[ 1 - \left( \frac{T_M}{T} \right)^2 \right] \frac{A}{Mg}$

(4)  $\left[ 1 - \left( \frac{T}{T_M} \right)^2 \right] \frac{A}{Mg}$

9. किसी गोलीय कोश (शैल) की त्रिज्या  $R$  है और इसका ताप  $T$  है। इसके भीतर कृष्णिका विकिरणों को फोटॉनों को एक ऐसी आदर्श गैस माना जा सकता है जिसकी प्रति इकाई आयतन आन्तरिक ऊर्जा,  $u = \frac{U}{V} \propto T^4$  तथा दाब,  $p = \frac{1}{3} \left( \frac{U}{V} \right)$  है। यदि इस कोश में रुद्धोष्म प्रसार हो तो,  $T$  तथा  $R$  के बीच संबंध होगा :

(1)  $T \propto e^{-R}$

(2)  $T \propto e^{-3R}$

(3)  $T \propto \frac{1}{R}$

(4)  $T \propto \frac{1}{R^3}$



10. A solid body of constant heat capacity  $1 \text{ J/}^\circ\text{C}$  is being heated by keeping it in contact with reservoirs in two ways :

- (i) Sequentially keeping in contact with 2 reservoirs such that each reservoir supplies same amount of heat.
- (ii) Sequentially keeping in contact with 8 reservoirs such that each reservoir supplies same amount of heat.

In both the cases body is brought from initial temperature  $100^\circ\text{C}$  to final temperature  $200^\circ\text{C}$ . Entropy change of the body in the two cases respectively is :

- (1)  $\ln 2, 4\ln 2$
- (2)  $\ln 2, \ln 2$
- (3)  $\ln 2, 2\ln 2$
- (4)  $2\ln 2, 8\ln 2$

11. Consider an ideal gas confined in an isolated closed chamber. As the gas undergoes an adiabatic expansion, the average time of collision between molecules increases as  $V^q$ , where  $V$  is the volume of the gas. The value of  $q$  is :

$$\left( \gamma = \frac{C_p}{C_v} \right)$$

- (1)  $\frac{3\gamma + 5}{6}$
- (2)  $\frac{3\gamma - 5}{6}$
- (3)  $\frac{\gamma + 1}{2}$
- (4)  $\frac{\gamma - 1}{2}$

10. एक ठोस पिंड (वस्तु) की स्थिर ऊष्मा धारिता  $1 \text{ J/}^\circ\text{C}$  है। इसको ऊष्मकों (ऊष्मा भंडारों) के सम्पर्क में रखकर निम्न दो प्रकार से गर्म किया जाता है,

- (i) अनुक्रमिक रूप से 2 ऊष्मकों के सम्पर्क में इस प्रकार रखकर कि प्रत्येक ऊष्मक समान मात्रा में ऊष्मा देता है,
- (ii) अनुक्रमिक रूप से 8 ऊष्मकों के सम्पर्क में इस प्रकार रखकर कि प्रत्येक ऊष्मक समान मात्रा में ऊष्मा देता है,

दोनों स्थितियों में पिंड का प्रारंभिक ताप  $100^\circ\text{C}$  तथा अन्तिम ताप  $200^\circ\text{C}$  है। तो, इन दो स्थितियों में पिंड की एन्ट्रॉपी में परिवर्तन होगा, क्रमशः





- (1)  $\ln 2, 4\ln 2$
- (2)  $\ln 2, \ln 2$
- (3)  $\ln 2, 2\ln 2$
- (4)  $2\ln 2, 8\ln 2$

11. एक आदर्श गैस किसी बन्द (संवृत), विद्युत् (विलगित) कक्ष में सीमित (रखी) है। इस गैस में रुद्धोष्म प्रसार होने पर, इसके अणुओं के बीच टक्कर का औसत काल (समय)  $V^q$  के अनुसार बढ़ जाता है, जहाँ  $V$  गैस का आयतन है। तो  $q$  का मान होगा :

$$\left( \gamma = \frac{C_p}{C_v} \right)$$





- (1)  $\frac{3\gamma + 5}{6}$
- (2)  $\frac{3\gamma - 5}{6}$
- (3)  $\frac{\gamma + 1}{2}$
- (4)  $\frac{\gamma - 1}{2}$

12. For a simple pendulum, a graph is plotted between its kinetic energy (KE) and potential energy (PE) against its displacement  $d$ . Which one of the following represents these correctly ? (graphs are schematic and not drawn to scale)




13. A train is moving on a straight track with speed  $20 \text{ ms}^{-1}$ . It is blowing its whistle at the frequency of  $1000 \text{ Hz}$ . The percentage change in the frequency heard by a person standing near the track as the train passes him is (speed of sound =  $320 \text{ ms}^{-1}$ ) close to :
- (1) 6%  
 (2) 12%  
 (3) 18%  
 (4) 24%

12. किसी सरल लोलक के लिये, उसके विस्थापन  $d$  तथा उसकी गतिज ऊर्जा के बीच और विस्थापन  $d$  तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचे गये हैं। निम्नांकित में से कौन सा ग्राफ (आलेख) सही है ? (यहाँ ग्राफ केवल व्यवस्था आरेख हैं और स्केल के अनुसार नहीं हैं)



13. एक ट्रेन (रेलगाड़ी) सीधी पटरियों पर  $20 \text{ ms}^{-1}$  की चाल से गति कर रही है। इसकी सीटी की ध्वनि की आवृत्ति  $1000 \text{ Hz}$  है। यदि ध्वनि की वायु में चाल  $320 \text{ ms}^{-1}$  हो तो, पटरियों के निकट खड़े व्यक्ति के पास से ट्रेन के गुजरने पर, उस व्यक्ति द्वारा सुनी गई सीटी की ध्वनि की आवृत्ति में प्रतिशत परिवर्तन होगा लगभग :
- (1) 6%  
 (2) 12%  
 (3) 18%  
 (4) 24%


14. A long cylindrical shell carries positive surface charge  $\sigma$  in the upper half and negative surface charge  $-\sigma$  in the lower half. The electric field lines around the cylinder will look like figure given in :  
(figures are schematic and not drawn to scale)



15. A uniformly charged solid sphere of radius  $R$  has potential  $V_0$  (measured with respect to  $\infty$ ) on its surface. For this sphere the equipotential surfaces with potentials  $\frac{3V_0}{2}$ ,  $\frac{5V_0}{4}$ ,  $\frac{3V_0}{4}$  and  $\frac{V_0}{4}$  have radius  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  and  $R_4$  respectively. Then

- (1)  $R_1 = 0$  and  $R_2 > (R_4 - R_3)$
- (2)  $R_1 \neq 0$  and  $(R_2 - R_1) > (R_4 - R_3)$
- (3)  $R_1 = 0$  and  $R_2 < (R_4 - R_3)$
- (4)  $2R < R_4$

14. किसी लम्बे बेलनाकार कोश के ऊपरी भाग में धनात्मक पृष्ठ आवेश  $\sigma$  तथा निचले भाग में ऋणात्मक पृष्ठ आवेश  $-\sigma$  हैं। इस बेलन (सिलिन्डर) के चारों ओर विद्युत क्षेत्र-रेखायें, यहाँ दर्शाये गये आरेखों में से किस आरेख के समान होंगी ?  
(यह आरेख केवल व्यवस्था आरेख है और स्केल के अनुसार नहीं है)





15.  $R$  त्रिज्या के किसी एकसमान आवेशित ठोस गोले के पृष्ठ का विभव  $V_0$  है ( $\infty$  के सापेक्ष मापा गया)। इस गोले के लिये,  $\frac{3V_0}{2}$ ,  $\frac{5V_0}{4}$ ,  $\frac{3V_0}{4}$  तथा  $\frac{V_0}{4}$  विभवों वाले समविभव पृष्ठों की त्रिज्यायें, क्रमशः  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  तथा  $R_4$  हैं। तो,

- (1)  $R_1 = 0$  तथा  $R_2 > (R_4 - R_3)$
- (2)  $R_1 \neq 0$  तथा  $(R_2 - R_1) > (R_4 - R_3)$
- (3)  $R_1 = 0$  तथा  $R_2 < (R_4 - R_3)$
- (4)  $2R < R_4$





16. In the given circuit, charge  $Q_2$  on the  $2\mu\text{F}$  capacitor changes as  $C$  is varied from  $1\mu\text{F}$  to  $3\mu\text{F}$ .  $Q_2$  as a function of ' $C$ ' is given properly by : (figures are drawn schematically and are not to scale)



17. When 5V potential difference is applied across a wire of length 0.1 m, the drift speed of electrons is  $2.5 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$ . If the electron density in the wire is  $8 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ , the resistivity of the material is close to :

- (1)  $1.6 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$   
 (2)  $1.6 \times 10^{-7} \Omega\text{m}$   
 (3)  $1.6 \times 10^{-6} \Omega\text{m}$   
 (4)  $1.6 \times 10^{-5} \Omega\text{m}$


16. दिये गये परिपथ में,  $C$  के मान के  $1\mu\text{F}$  से  $3\mu\text{F}$  परिवर्तित होने से,  $2\mu\text{F}$  संधारित्र पर आवेश  $Q_2$  में परिवर्तन होता है। ' $C$ ' के फलन के रूप में  $Q_2$  को कौन सा आलेख सही दर्शाता है? (आलेख केवल व्यवस्था आरेख हैं और स्केल के अनुसार नहीं हैं।)



17. 0.1 m लंबे किसी तार के सिरों के बीच 5V विभवांतर आरोपित करने से इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल  $2.5 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$  होती है। यदि इस तार में इलेक्ट्रॉन घनत्व  $8 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$  हो तो, इस के पदार्थ की प्रतिरोधकता होगी, लगभग :

- (1)  $1.6 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$   
 (2)  $1.6 \times 10^{-7} \Omega\text{m}$   
 (3)  $1.6 \times 10^{-6} \Omega\text{m}$   
 (4)  $1.6 \times 10^{-5} \Omega\text{m}$

18.




In the circuit shown, the current in the  $1\Omega$  resistor is :

- (1) 1.3 A, from P to Q
- (2) 0A
- (3) 0.13 A, from Q to P
- (4) 0.13 A, from P to Q

19. Two coaxial solenoids of different radii carry current  $I$  in the same direction. Let  $\vec{F}_1$  be the magnetic force on the inner solenoid due to the outer one and  $\vec{F}_2$  be the magnetic force on the outer solenoid due to the inner one. Then :

- (1)  $\vec{F}_1 = \vec{F}_2 = 0$
- (2)  $\vec{F}_1$  is radially inwards and  $\vec{F}_2$  is radially outwards
- (3)  $\vec{F}_1$  is radially inwards and  $\vec{F}_2 = 0$
- (4)  $\vec{F}_1$  is radially outwards and  $\vec{F}_2 = 0$

18.



दशयिे गये परिपथ में  $1\Omega$  प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा होगी :

- (1) 1.3 A, P से Q की ओर
- (2) 0 (शून्य) A
- (3) 0.13 A, Q से P को
- (4) 0.13 A, P से Q को

19. दो समाक्षी परिनालिकाओं में, प्रत्येक से  $I$  धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। यदि, बाहरी परिनालिका के कारण, भीतरी परिनालिका पर चुम्बकीय बल  $\vec{F}_1$  तथा भीतरी परिनालिका के कारण, बाहरी परिनालिका पर चुम्बकीय बल  $\vec{F}_2$  हो तो :

- (1)  $\vec{F}_1 = \vec{F}_2 = 0$
- (2)  $\vec{F}_1$  भीतर की ओर व अरीय (त्रिन्ध्य) है और  $\vec{F}_2$  बाहर की ओर व अरीय है।
- (3)  $\vec{F}_1$  भीतर की ओर व अरीय है तथा  $\vec{F}_2 = 0$  है।
- (4)  $\vec{F}_1$  बाहर की ओर व अरीय है तथा  $\vec{F}_2 = 0$  है।

20.



Two long current carrying thin wires, both with current  $I$ , are held by insulating threads of length  $L$  and are in equilibrium as shown in the figure, with threads making an angle ' $\theta$ ' with the vertical. If wires have mass  $\lambda$  per unit length then the value of  $I$  is :

( $g = \text{gravitational acceleration}$ )

(1)  $\sin\theta \sqrt{\frac{\pi\lambda gL}{\mu_0 \cos\theta}}$

(2)  $2\sin\theta \sqrt{\frac{\pi\lambda gL}{\mu_0 \cos\theta}}$

(3)  $2 \sqrt{\frac{\pi gL}{\mu_0} \tan\theta}$

(4)  $\sqrt{\frac{\pi\lambda gL}{\mu_0} \tan\theta}$

20.



दो पतले लम्बे तारों में प्रत्येक से  $I$  धारा प्रवाहित हो रही है। इन्हें  $L$  लम्बाई के विद्युत्रोधी धागों से लटकाया गया है। इन धागों में प्रत्येक के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा से ' $\theta$ ' कोण बनाने की स्थिति में, ये दोनों तार साम्यावस्था में रहते हैं। यदि इन तारों की प्रति इकाई लम्बाई द्रव्यमान  $\lambda$  है तथा  $g$  गुरुत्वीय त्वरण है तो,  $I$  का मान होगा :





(1)  $\sin\theta \sqrt{\frac{\pi\lambda gL}{\mu_0 \cos\theta}}$

(2)  $2\sin\theta \sqrt{\frac{\pi\lambda gL}{\mu_0 \cos\theta}}$

(3)  $2 \sqrt{\frac{\pi gL}{\mu_0} \tan\theta}$

(4)  $\sqrt{\frac{\pi\lambda gL}{\mu_0} \tan\theta}$




21. A rectangular loop of sides 10 cm and 5 cm carrying a current  $I$  of 12 A is placed in different orientations as shown in the figures below :



If there is a uniform magnetic field of 0.3 T in the positive  $z$  direction, in which orientations the loop would be in (i) stable equilibrium and (ii) unstable equilibrium ?

- (1) (a) and (b), respectively
- (2) (a) and (c), respectively
- (3) (b) and (d), respectively
- (4) (b) and (c), respectively

21. 10 cm तथा 5 cm भुजाओं के एक आयताकार लूप (पाश) से एक विद्युत धारा,  $I = 12$  A, प्रवाहित हो रही है। इस पाश को अरिख में दर्शाये गये अनुसार विभिन्न अभिविन्यासों (स्थितियों) में रखा गया है।




यदि यहाँ 0.3 T तीव्रता का कोई एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र, धनात्मक  $z$  दिशा में विद्यमान है तो, दर्शाये गये किस अभिविन्यास में, यह पाश (लूप) (i) स्थायी संतुलन तथा (ii) अस्थायी संतुलन में, होगा ?

- (1) क्रमशः (a) तथा (b) में
- (2) क्रमशः (a) तथा (c) में
- (3) क्रमशः (b) तथा (d) में
- (4) क्रमशः (b) तथा (c) में



22. An inductor ( $L=0.03\text{H}$ ) and a resistor ( $R=0.15\text{ k}\Omega$ ) are connected in series to a battery of  $15\text{V}$  EMF in a circuit shown below. The key  $K_1$  has been kept closed for a long time. Then at  $t=0$ ,  $K_1$  is opened and key  $K_2$  is closed simultaneously. At  $t=1\text{ms}$ , the current in the circuit will be : ( $e^5 \approx 150$ )




- (1) 100 mA
- (2) 67 mA
- (3) 6.7 mA
- (4) 0.67 mA

23. A red LED emits light at  $0.1\text{ watt}$  uniformly around it. The amplitude of the electric field of the light at a distance of  $1\text{ m}$  from the diode is :

- (1) 1.73 V/m
- (2) 2.45 V/m
- (3) 5.48 V/m
- (4) 7.75 V/m

22. दर्शाये गये परिपथ में, एक प्रेरक ( $L=0.03\text{H}$ ) तथा एक प्रतिरोधक ( $R=0.15\text{ k}\Omega$ ) किसी  $15\text{V}$  विद्युत वाहक बल (ई.एम.एफ) की बैटरी से जुड़े हैं। कुंजी  $K_1$  को बहुत समय तक बन्द रखा गया है। इसके पश्चात् समय  $t=0$  पर,  $K_1$  को खोल कर साथ ही साथ,  $K_2$  को बन्द किया जाता है। समय  $t=1\text{ms}$  पर, परिपथ में विद्युत धारा होगी : ( $e^5 \approx 150$ )




- (1) 100 mA
- (2) 67 mA
- (3) 6.7 mA
- (4) 0.67 mA

23. एक लाल रंग का एल.ई.डी. (प्रकाश उत्सर्जक डायोड)  $0.1\text{ वाट}$  पर, एकसमान प्रकाश उत्सर्जित करता है। डायोड से  $1\text{ m}$  दूरी पर, इस प्रकाश के विद्युत क्षेत्र का आयाम होगा :

- (1) 1.73 V/m
- (2) 2.45 V/m
- (3) 5.48 V/m
- (4) 7.75 V/m

24. Monochromatic light is incident on a glass prism of angle  $A$ . If the refractive index of the material of the prism is  $\mu$ , a ray, incident at an angle  $\theta$ , on the face  $AB$  would get transmitted through the face  $AC$  of the prism provided :



$$(1) \quad \theta > \sin^{-1} \left[ \mu \sin \left( A - \sin^{-1} \left( \frac{1}{\mu} \right) \right) \right]$$

$$(2) \quad \theta < \sin^{-1} \left[ \mu \sin \left( A - \sin^{-1} \left( \frac{1}{\mu} \right) \right) \right]$$


$$(3) \quad \theta > \cos^{-1} \left[ \mu \sin \left( A + \sin^{-1} \left( \frac{1}{\mu} \right) \right) \right]$$

$$(4) \quad \theta < \cos^{-1} \left[ \mu \sin \left( A + \sin^{-1} \left( \frac{1}{\mu} \right) \right) \right]$$

25. On a hot summer night, the refractive index of air is smallest near the ground and increases with height from the ground. When a light beam is directed horizontally, the Huygens' principle leads us to conclude that as it travels, the light beam :

- (1) becomes narrower
- (2) goes horizontally without any deflection
- (3) bends downwards
- (4) bends upwards

24. काँच के किसी प्रिज्म का कोण 'A' है। इस पर एकवर्णी प्रकाश आपतित होता है। यदि, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक  $\mu$  है तो, प्रिज्म के AB फलक पर,  $\theta$  कोण आपतित प्रकाश की किरण, प्रिज्म के फलक AC से पारगत होगी यदि :



$$(1) \quad \theta > \sin^{-1} \left[ \mu \sin \left( A - \sin^{-1} \left( \frac{1}{\mu} \right) \right) \right]$$

$$(2) \quad \theta < \sin^{-1} \left[ \mu \sin \left( A - \sin^{-1} \left( \frac{1}{\mu} \right) \right) \right]$$

$$(3) \quad \theta > \cos^{-1} \left[ \mu \sin \left( A + \sin^{-1} \left( \frac{1}{\mu} \right) \right) \right]$$

$$(4) \quad \theta < \cos^{-1} \left[ \mu \sin \left( A + \sin^{-1} \left( \frac{1}{\mu} \right) \right) \right]$$

25. ग्रीष्म ऋतु की गर्म रात्रि में, भू-तल के निकट, वायु का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है और भू-तल से ऊँचाई के साथ बढ़ता जाता है। यदि, कोई प्रकाश-किरण-पुंज क्षैतिज दिशा में जा रहा हो तो, हाइगेन्स के सिद्धान्त से यह परिणाम प्राप्त होता है कि, चलते हुए प्रकाश-किरण पुंज :

- (1) संकुचित (संकीर्ण) हो जायेगा।
- (2) बिना विक्षेपित हुए, क्षैतिज दिशा में चलता रहेगा।
- (3) नीचे की ओर झुक जायेगा।
- (4) ऊपर की ओर झुक जायेगा।

26. Assuming human pupil to have a radius of 0.25 cm and a comfortable viewing distance of 25 cm, the minimum separation between two objects that human eye can resolve at 500 nm wavelength is :

- (1) 1  $\mu\text{m}$
- (2) 30  $\mu\text{m}$
- (3) 100  $\mu\text{m}$
- (4) 300  $\mu\text{m}$

27. As an electron makes a transition from an excited state to the ground state of a hydrogen - like atom/ion :

- (1) its kinetic energy increases but potential energy and total energy decrease
- (2) kinetic energy, potential energy and total energy decrease
- (3) kinetic energy decreases, potential energy increases but total energy remains same
- (4) kinetic energy and total energy decrease but potential energy increases

26. यदि मानव नेत्र की पुतली की त्रिज्या 0.25 cm, और स्पष्ट सुविधा जनक देखने की दूरी 25 cm हो तो, 500 nm तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में, दो वस्तुओं के बीच कितनी न्यूनतम दूरी तक मानव नेत्र उन दोनों के बीच विभेदन कर सकेगा ?

- (1) 1  $\mu\text{m}$
- (2) 30  $\mu\text{m}$
- (3) 100  $\mu\text{m}$
- (4) 300  $\mu\text{m}$

27. जब कोई इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जैसे परमाणु / आयन की उत्तेजित अवस्था से न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करता है तो उसकी :

- (1) गतिज ऊर्जा में वृद्धि तथा स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा में कमी होती है।
- (2) गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा में कमी हो जाती है।
- (3) गतिज ऊर्जा कम होती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और कुल ऊर्जा वही रहती है।
- (4) गतिज ऊर्जा व कुल ऊर्जा कम हो जाती हैं किन्तु, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है।

28. Match List - I (Fundamental Experiment) with List - II (its conclusion) and select the correct option from the choices given below the list :

|     | List - I                     |       | List - II                      |
|-----|------------------------------|-------|--------------------------------|
| (A) | Franck-Hertz Experiment.     | (i)   | Particle nature of light       |
| (B) | Photo-electric experiment.   | (ii)  | Discrete energy levels of atom |
| (C) | Davison - Germer Experiment. | (iii) | Wave nature of electron        |
|     |                              | (iv)  | Structure of atom              |

- (1) (A) - (i) (B) - (iv) (C) - (iii)  
 (2) (A) - (ii) (B) - (iv) (C) - (iii)  
 (3) (A) - (ii) (B) - (i) (C) - (iii)  
 (4) (A) - (iv) (B) - (iii) (C) - (ii)

29. A signal of 5 kHz frequency is amplitude modulated on a carrier wave of frequency 2 MHz. The frequencies of the resultant signal is/are :

- (1) 2 MHz only  
 (2) 2005 kHz, and 1995 kHz  
 (3) 2005 kHz, 2000 kHz and 1995 kHz  
 (4) 2000 kHz and 1995 kHz

28. सूची - I (मूल प्रयोग) का सूची - II (उसके परिणाम) के साथ सुमेलन (मैच) कीजिये और निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिये :

|     | सूची - I              |       | सूची - II                  |
|-----|-----------------------|-------|----------------------------|
| (A) | फ्रैंक हर्ट्स प्रयोग  | (i)   | प्रकाश की कणिका प्रकृति    |
| (B) | प्रकाश विद्युत प्रयोग | (ii)  | अणु के विविक्त ऊर्जा स्तर  |
| (C) | डेविसन जर्मर प्रयोग   | (iii) | इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति |
|     |                       | (iv)  | परमाणु की संरचना           |


- (1) (A) - (i) (B) - (iv) (C) - (iii)  
 (2) (A) - (ii) (B) - (iv) (C) - (iii)  
 (3) (A) - (ii) (B) - (i) (C) - (iii)  
 (4) (A) - (iv) (B) - (iii) (C) - (ii)

29. 5 kHz आवृत्ति के किसी संकेत (सिग्नल) का 2 MHz आवृत्ति की वाहक तरंग पर आयाम मॉड्युलन किया गया है। तो, परिणामी सिग्नल (संकेत) की आवृत्ति होगी :





- (1) 2 MHz केवल  
 (2) 2005 kHz, तथा 1995 kHz  
 (3) 2005 kHz, 2000 kHz तथा 1995 kHz  
 (4) 2000 kHz तथा 1995 kHz




30. An LCR circuit is equivalent to a damped pendulum. In an LCR circuit the capacitor is charged to  $Q_0$  and then connected to the L and R as shown below :







If a student plots graphs of the square of maximum charge ( $Q_{Max}^2$ ) on the capacitor with time(t) for two different values  $L_1$  and  $L_2$  ( $L_1 > L_2$ ) of L then which of the following represents this graph correctly ? (plots are schematic and not drawn to scale)



30. LCR (एल.सी.आर) परिपथ किसी अवमंदित लोलक के तुल्य होता है। किसी LCR परिपथ में संधारित्र को  $Q_0$  तक आवेशित किया गया है, और फिर इसे आरेख में दर्शाये गये अनुसार L व R से जोड़ा गया है।



यदि एक विद्यार्थी L के, दो विभिन्न मानों,  $L_1$  तथा  $L_2$  ( $L_1 > L_2$ ) के लिये, समय t तथा संधारित्र पर अधिकतम आवेश के वर्ग  $Q_{Max}^2$  के बीच दो ग्राफ बनाता है तो निम्नांकित में से कौन सा ग्राफ सही है ? (प्लॉट केवल व्यवस्था प्लॉट हैं तथा स्केल के अनुसार नहीं हैं)



PART B – CHEMISTRY

31. The molecular formula of a commercial resin used for exchanging ions in water softening is  $C_8H_7SO_3Na$  (Mol. wt. 206). What would be the maximum uptake of  $Ca^{2+}$  ions by the resin when expressed in mole per gram resin ?

(1)  $\frac{1}{103}$

(2)  $\frac{1}{206}$

(3)  $\frac{2}{309}$

(4)  $\frac{1}{412}$

32. Sodium metal crystallizes in a body centred cubic lattice with a unit cell edge of  $4.29\text{\AA}$ . The radius of sodium atom is approximately :

(1)  $1.86\text{\AA}$

(2)  $3.22\text{\AA}$

(3)  $5.72\text{\AA}$

(4)  $0.93\text{\AA}$

33. Which of the following is the energy of a possible excited state of hydrogen ?

(1)  $+13.6\text{ eV}$

(2)  $-6.8\text{ eV}$

(3)  $-3.4\text{ eV}$

(4)  $+6.8\text{ eV}$

भाग B – रसायन विज्ञान

31. एक वाणिज्य रेजिन का आण्विक सूत्र  $C_8H_7SO_3Na$  है (आण्विक भार = 206) इस रेजिन को  $Ca^{2+}$  आयन को अधिकतम अंतर्ग्रहण क्षमता (मोल प्रति ग्राम रेजिन) क्या है ?

(1)  $\frac{1}{103}$

(2)  $\frac{1}{206}$

(3)  $\frac{2}{309}$

(4)  $\frac{1}{412}$

32. सोडियम धातु एक अंतःकेन्द्रित घनीय जालक में क्रिस्टलित होता है जिसके कोर की लंबाई  $4.29\text{\AA}$  है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या लगभग है :

(1)  $1.86\text{\AA}$

(2)  $3.22\text{\AA}$

(3)  $5.72\text{\AA}$

(4)  $0.93\text{\AA}$

33. निम्नलिखित में से हाईड्रोजन की संभव उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा कौन सी है ?

(1)  $+13.6\text{ eV}$

(2)  $-6.8\text{ eV}$


(3)  $-3.4\text{ eV}$

(4)  $+6.8\text{ eV}$

34. The intermolecular interaction that is dependent on the inverse cube of distance between the molecules is :

- (1) ion - ion interaction
- (2) ion - dipole interaction
- (3) London force
- (4) hydrogen bond

35. The following reaction is performed at 298 K.



The standard free energy of formation of  $\text{NO}(\text{g})$  is  $86.6 \text{ kJ/mol}$  at  $298 \text{ K}$ . What is the standard free energy of formation of  $\text{NO}_2(\text{g})$  at  $298 \text{ K}$ ? ( $K_p = 1.6 \times 10^{12}$ )

- (1)  $R(298) \ln(1.6 \times 10^{12}) - 86600$
- (2)  $86600 + R(298) \ln(1.6 \times 10^{12})$
- (3)  $86600 - \frac{\ln(1.6 \times 10^{12})}{R(298)}$
- (4)  $0.5[2 \times 86,600 - R(298) \ln(1.6 \times 10^{12})]$


36. The vapour pressure of acetone at  $20^\circ\text{C}$  is  $185 \text{ torr}$ . When  $1.2 \text{ g}$  of a non-volatile substance was dissolved in  $100 \text{ g}$  of acetone at  $20^\circ\text{C}$ , its vapour pressure was  $183 \text{ torr}$ . The molar mass ( $\text{g mol}^{-1}$ ) of the substance is :

- (1) 32
- (2) 64
- (3) 128
- (4) 488

34. वह अंतरा-अणुक अन्योन्य क्रिया जो अणुओं के बीच की दूरी के प्रतिलोम घन पर निर्भर है, है :

- (1) आयन - आयन अन्योन्य
- (2) आयन - द्विध्रुव अन्योन्य
- (3) लंडन बल
- (4) हाईड्रोजन बंधक

35. निम्नलिखित अभिक्रिया को  $298 \text{ K}$  पर किया गया।



$298 \text{ K}$  पर  $\text{NO}(\text{g})$  के संभवन की मानक मुक्त ऊर्जा  $86.6 \text{ kJ/mol}$  है।  $298 \text{ K}$  पर  $\text{NO}_2(\text{g})$  की मानक मुक्त ऊर्जा क्या है? ( $K_p = 1.6 \times 10^{12}$ )

- (1)  $R(298) \ln(1.6 \times 10^{12}) - 86600$
- (2)  $86600 + R(298) \ln(1.6 \times 10^{12})$
- (3)  $86600 - \frac{\ln(1.6 \times 10^{12})}{R(298)}$
- (4)  $0.5[2 \times 86,600 - R(298) \ln(1.6 \times 10^{12})]$

36.  $20^\circ\text{C}$  पर ऐसिटोन की वाष्प दाब  $185 \text{ torr}$  है। जब  $20^\circ\text{C}$  पर,  $1.2 \text{ g}$  अवाष्पशील पदार्थ को  $100 \text{ g}$  ऐसिटोन में घोला गया, तब वाष्प दाब  $183 \text{ torr}$  हो गया। इस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ( $\text{g mol}^{-1}$  में) है :

- (1) 32
- (2) 64
- (3) 128
- (4) 488

37. The standard Gibbs energy change at 300 K for the reaction  $2A = B + C$  is 2494.2 J. At a given time, the composition of the reaction mixture is  $[A] = \frac{1}{2}$ ,  $[B] = 2$  and  $[C] = \frac{1}{2}$ . The reaction proceeds in the :  $[R = 8.314 \text{ J/K/mol}, e = 2.718]$
- (1) forward direction because  $Q > K_c$
  - (2) reverse direction because  $Q > K_c$
  - (3) forward direction because  $Q < K_c$
  - (4) reverse direction because  $Q < K_c$
38. Two Faraday of electricity is passed through a solution of  $\text{CuSO}_4$ . The mass of copper deposited at the cathode is : (at. mass of  $\text{Cu} = 63.5 \text{ amu}$ )
- (1) 0 g
  - (2) 63.5 g
  - (3) 2 g
  - (4) 127 g
39. Higher order ( $>3$ ) reactions are rare due to :
- (1) low probability of simultaneous collision of all the reacting species
  - (2) increase in entropy and activation energy as more molecules are involved
  - (3) shifting of equilibrium towards reactants due to elastic collisions
  - (4) loss of active species on collision
37. 300 K पर अभिक्रिया  $2A = B + C$  का मानक गिब्स ऊर्जा 2494.2 J है। दिए गए समय में अभिक्रिया मिश्रण का संघटन  $[A] = \frac{1}{2}$ ,  $[B] = 2$  और  $[C] = \frac{1}{2}$  है। अभिक्रिया अग्रसित होती है :  $[R = 8.314 \text{ J/K/mol}, e = 2.718]$
- (1) अग्र दिशा में क्योंकि  $Q > K_c$
  - (2) विपरीत दिशा में क्योंकि  $Q > K_c$
  - (3) अग्र दिशा में क्योंकि  $Q < K_c$
  - (4) विपरीत दिशा में क्योंकि  $Q < K_c$
38.  $\text{CuSO}_4$  के एक विलयन में, दो फेराडे विद्युत प्रवाहित की गई। कैथोड पर निक्षेपित तांबे का द्रव्यमान है : ( $\text{Cu}$  का परमाण्विक द्रव्यमान = 63.5 amu)
- (1) 0 g
  - (2) 63.5 g
  - (3) 2 g
  - (4) 127 g
39. उच्च कोटि अभिक्रिया ( $>3$ ) दुर्लभ है क्योंकि :
- (1) प्रतिक्रिया में सभी प्रजातियों के एक साथ टक्कर की संभावना कम होती है।
  - (2) अधिक अणुओं के शामिल होने से एंद्रापी और सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि होती है।
  - (3) लोचदार टक्कर के कारण अभिकारकों की दिशा में साम्य का स्थानांतरण होता है।
  - (4) टक्कर से सक्रिय स्पीशीज का क्षय होता है।



40. 3 g of activated charcoal was added to 50 mL of acetic acid solution (0.06N) in a flask. After an hour it was filtered and the strength of the filtrate was found to be 0.042 N. The amount of acetic acid adsorbed (per gram of charcoal) is :
- (1) 18 mg  
(2) 36 mg  
(3) 42 mg  
(4) 54 mg
41. The ionic radii (in Å) of  $N^{3-}$ ,  $O^{2-}$  and  $F^{-}$  are respectively :
- (1) 1.36, 1.40 and 1.71  
(2) 1.36, 1.71 and 1.40  
(3) 1.71, 1.40 and 1.36  
(4) 1.71, 1.36 and 1.40
42. In the context of the Hall - Heroult process for the extraction of Al, which of the following statements is false ?
- (1) CO and  $CO_2$  are produced in this process  
(2)  $Al_2O_3$  is mixed with  $CaF_2$  which lowers the melting point of the mixture and brings conductivity  
(3)  $Al^{3+}$  is reduced at the cathode to form Al  
(4)  $Na_3AlF_6$  serves as the electrolyte
40. एक फ्लास्क में 0.06N एसिटिक अम्ल के 50 mL विलयन में 3 g सक्रियित काष्ठ कोयला मिलाया गया। एक घंटे के पश्चात् उसे छाना गया और निस्पंद की प्रबलता 0.042 N पाई गई। अधिशोषित एसिटिक अम्ल की मात्रा (काष्ठ-कोयला के प्रति ग्राम पर) है :
- (1) 18 mg  
(2) 36 mg  
(3) 42 mg  
(4) 54 mg
41.  $N^{3-}$ ,  $O^{2-}$  तथा  $F^{-}$  की आयनिक त्रिज्यायें (Å में) क्रमशः हैं :
- (1) 1.36, 1.40 तथा 1.71  
(2) 1.36, 1.71 तथा 1.40  
(3) 1.71, 1.40 तथा 1.36  
(4) 1.71, 1.36 तथा 1.40
42. हॉल-हेरॉल्ट प्रक्रम से ऐलुमिनियम के निष्कर्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ?
- (1) इस प्रक्रम में CO तथा  $CO_2$  का उत्पादन होता है।  
(2)  $CaF_2$  को  $Al_2O_3$  में मिलाने पर मिश्रण का गलनांक कम होता है और उसमें चालकता आती है।  
(3) कैथोड पर  $Al^{3+}$  अपचयित हो कर Al बनाता है।  
(4)  $Na_3AlF_6$  विद्युत अपघट्य का काम करता है।

43. From the following statements regarding  $H_2O_2$ , choose the **incorrect** statement :
- (1) It can act only as an oxidizing agent
  - (2) It decomposes on exposure to light
  - (3) It has to be stored in plastic or wax lined glass bottles in dark
  - (4) It has to be kept away from dust
44. Which one of the following alkaline earth metal sulphates has its hydration enthalpy greater than its lattice enthalpy ?
- (1)  $CaSO_4$
  - (2)  $BeSO_4$
  - (3)  $BaSO_4$
  - (4)  $SrSO_4$
45. Which among the following is the most reactive ?
- (1)  $Cl_2$
  - (2)  $Br_2$
  - (3)  $I_2$
  - (4)  $ICl$
43.  $H_2O_2$  के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से **गलत** कथन चुनिए :
- (1) यह केवल ऑक्सीकारक है
  - (2) प्रकाश में इसका अपघटन होता है
  - (3) इसे प्लास्टिक या मोमअटे कांच बोतलों में अंधेरे में संग्रहित किया जाता है
  - (4) इसे धूल से दूर रखना चाहिए
44. निम्नलिखित में से कौन से क्षारीय मृदा धातु सल्फेट को जलयोजन ऐन्थाल्पी उसके जालक ऐन्थाल्पी से अधिक है ?
- (1)  $CaSO_4$
  - (2)  $BeSO_4$
  - (3)  $BaSO_4$
  - (4)  $SrSO_4$
45. निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अभिक्रियाशील है ?
- (1)  $Cl_2$
  - (2)  $Br_2$
  - (3)  $I_2$
  - (4)  $ICl$

46. Match the catalysts to the correct processes :

| Catalyst   | Process                             |
|--|-------------------------------------|
| (A) $TiCl_3$                                       | (i) Wacker process                  |
| (B) $PdCl_2$                                       | (ii) Ziegler - Natta polymerization |
| (C) $CuCl_2$                                       | (iii) Contact process               |
| (D) $V_2O_5$                                       | (iv) Deacon's process               |
| (1) (A) - (iii), (B) - (ii), (C) - (iv), (D) - (i) |                                     |
| (2) (A) - (ii), (B) - (i), (C) - (iv), (D) - (iii) |                                     |
| (3) (A) - (ii), (B) - (iii), (C) - (iv), (D) - (i) |                                     |
| (4) (A) - (iii), (B) - (i), (C) - (ii), (D) - (iv) |                                     |

47. Which one has the highest boiling point ?

- (1) He
- (2) Ne
- (3) Kr
- (4) Xe

48. The number of geometric isomers that can exist for square planar  $[Pt(Cl)(py)(NH_3)(NH_2OH)]^+$  is (py = pyridine) :

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 6

49. The color of  $KMnO_4$  is due to :

- (1)  $M \rightarrow L$  charge transfer transition
- (2)  $d - d$  transition
- (3)  $L \rightarrow M$  charge transfer transition
- (4)  $\sigma - \sigma^*$  transition

46. दिए गए उत्प्रेरकों को सही प्रक्रम के साथ सुमेलित करें :

| उत्प्रेरक  | प्रक्रम                       |
|--|-------------------------------|
| (A) $TiCl_3$                                       | (i) वॉकर प्रक्रम              |
| (B) $PdCl_2$                                       | (ii) त्सीग्लर-नट्टा बहुलकीकरण |
| (C) $CuCl_2$                                       | (iii) संस्पर्श प्रक्रम        |
| (D) $V_2O_5$                                       | (iv) डीकन प्रक्रम             |
| (1) (A) - (iii), (B) - (ii), (C) - (iv), (D) - (i) |                               |
| (2) (A) - (ii), (B) - (i), (C) - (iv), (D) - (iii) |                               |
| (3) (A) - (ii), (B) - (iii), (C) - (iv), (D) - (i) |                               |
| (4) (A) - (iii), (B) - (i), (C) - (ii), (D) - (iv) |                               |

47. निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्वथनांक किसका है ?

- (1) He
- (2) Ne
- (3) Kr
- (4) Xe

48. वर्ग समतलीय  $[Pt(Cl)(py)(NH_3)(NH_2OH)]^+$  (py = pyridine) के ज्यामितीय समावयवियों की संख्या है :

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 6





49.  $KMnO_4$  के रंग का कारण है :

- (1)  $M \rightarrow L$  आवेश स्थानांतरण संक्रमण
- (2)  $d - d$  संक्रमण
- (3)  $L \rightarrow M$  आवेश स्थानांतरण संक्रमण
- (4)  $\sigma - \sigma^*$  संक्रमण

50. **Assertion :** Nitrogen and Oxygen are the main components in the atmosphere but these do not react to form oxides of nitrogen.
- Reason :** The reaction between nitrogen and oxygen requires high temperature.
- (1) Both assertion and reason are correct, and the reason is the correct explanation for the assertion
- (2) Both assertion and reason are correct, but the reason is not the correct explanation for the assertion
- (3) The assertion is incorrect, but the reason is correct
- (4) Both the assertion and reason are incorrect
51. In Carius method of estimation of halogens, 250 mg of an organic compound gave 141 mg of AgBr. The percentage of bromine in the compound is :  
(at. mass Ag = 108; Br = 80)
- (1) 24
- (2) 36
- (3) 48
- (4) 60
52. Which of the following compounds will exhibit geometrical isomerism ?
- (1) 1 - Phenyl - 2 - butene
- (2) 3 - Phenyl - 1 - butene
- (3) 2 - Phenyl - 1 - butene
- (4) 1, 1 - Diphenyl - 1 - propane
50. **अभिकथन :** नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वातावरण के मुख्य घटक हैं परन्तु यह क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं बनाते।
- तर्क :** नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता है।
- (1) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं परन्तु तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) अभिकथन गलत है परन्तु तर्क सही है।
- (4) अभिकथन व तर्क दोनों गलत हैं।
51. हैलोजन के आकलन की कैरिअस विधि में 250 mg कार्बनिक यौगिक 141 mg AgBr देता है। यौगिक में ब्रोमीन की प्रतिशतता है :  
(परमाण्विक द्रव्यमान Ag = 108; Br = 80)
- (1) 24
- (2) 36
- (3) 48
- (4) 60
52. निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है ?
- (1) 1 - फेनिल - 2 - ब्यूटीन
- (2) 3 - फेनिल - 1 - ब्यूटीन
- (3) 2 - फेनिल - 1 - ब्यूटीन
- (4) 1, 1 - डाइफेनिल - 1 - प्रोपेन







53. Which compound would give 5 - keto - 2 - methyl hexanal upon ozonolysis ?



54. The synthesis of alkyl fluorides is best accomplished by :

- (1) Free radical fluorination
- (2) Sandmeyer's reaction
- (3) Finkelstein reaction
- (4) Swarts reaction


53. ओज़ोनोलिसिस करने पर कौन सा यौगिक 5 - कीटो - 2 - मेथिल हेक्सानैल देता है ?



54. अल्काइल फ्लोराइड के संश्लेषण के लिए सबसे बेहतरीन विधि है :

- (1) मुक्त मूलक फ्लोरिनेशन
- (2) सैन्डमायर अभिक्रिया
- (3) फिंकलस्टाइन अभिक्रिया
- (4) स्वार्टस अभिक्रिया


55. In the following sequence of reactions :



the product C is :

- (1)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$
- (2)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$
- (3)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$
- (4)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$

56. In the reaction



the product E is :

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

55. दिए गए अभिक्रिया अनुक्रम में उत्पाद C है :



- (1)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$
- (2)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$
- (3)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$
- (4)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$

56. दिए गए अभिक्रिया में उत्पाद E है :



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

57. Which polymer is used in the manufacture of paints and lacquers ?
- (1) Bakelite
  - (2) Glyptal
  - (3) Polypropene
  - (4) Poly vinyl chloride
58. Which of the vitamins given below is water soluble ?
- (1) Vitamin C
  - (2) Vitamin D
  - (3) Vitamin E
  - (4) Vitamin K
59. Which of the following compounds is **not** an antacid ?
- (1) Aluminium hydroxide
  - (2) Cimetidine
  - (3) Phenelzine
  - (4) Ranitidine
60. Which of the following compounds is **not** colored yellow ?
- (1)  $Zn_2[Fe(CN)_6]$
  - (2)  $K_3[Co(NO_2)_6]$
  - (3)  $(NH_4)_3 [As (Mo_3 O_{10})_4]$
  - (4)  $BaCrO_4$
57. किस बहुलक का उपयोग प्रलेप और प्रलाक्ष बनाने में होता है ?
- (1) बेकेलाइट
  - (2) ग्लिप्टाल
  - (3) पॉलिप्रोपीन
  - (4) पॉलि वाइनिल क्लोराइड
58. निम्नलिखित विटामिनों में जल में थिलेय होने वाला है :
- (1) विटामिन C
  - (2) विटामिन D
  - (3) विटामिन E
  - (4) विटामिन K
59. निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रतिअम्ल **नहीं** है ?
- (1) ऐलुमिनियम हाइड्रॉक्साइड
  - (2) सिमेटिडीन
  - (3) फ्रिनल्लिन
  - (4) रैनितिडीन
60. दिए गए यौगिकों में कौन से यौगिक का रंग पीला **नहीं** है ?
- (1)  $Zn_2[Fe(CN)_6]$
  - (2)  $K_3[Co(NO_2)_6]$
  - (3)  $(NH_4)_3 [As (Mo_3 O_{10})_4]$
  - (4)  $BaCrO_4$

PART C – MATHEMATICS

भाग C – गणित

61. Let A and B be two sets containing four and two elements respectively. Then the number of subsets of the set  $A \times B$ , each having at least three elements is :

- (1) 219
- (2) 256
- (3) 275
- (4) 510

62. A complex number  $z$  is said to be unimodular if  $|z|=1$ . Suppose  $z_1$  and  $z_2$  are complex numbers such that  $\frac{z_1 - 2z_2}{2 - z_1 z_2}$  is unimodular and  $z_2$  is not unimodular. Then the point  $z_1$  lies on a :

- (1) straight line parallel to  $x$ -axis.
- (2) straight line parallel to  $y$ -axis.
- (3) circle of radius 2.
- (4) circle of radius  $\sqrt{2}$ .

63. Let  $\alpha$  and  $\beta$  be the roots of equation  $x^2 - 6x - 2 = 0$ . If  $a_n = \alpha^n - \beta^n$ , for  $n \geq 1$ , then the value of  $\frac{a_{10} - 2a_8}{2a_9}$  is equal to :

- (1) 6
- (2) -6
- (3) 3
- (4) -3

61. माना A तथा B दो समुच्चय हैं जिनमें क्रमशः चार तथा दो अवयव हैं, तो समुच्चय  $A \times B$  के उन उपसमुच्चयों की संख्या, जिनमें प्रत्येक में कम से कम तीन अवयव हैं, है :

- (1) 219
- (2) 256
- (3) 275
- (4) 510

62. एक सम्मिश्र संख्या  $z$  एकमापांकी कहलाती है यदि  $|z|=1$  है। माना  $z_1$  तथा  $z_2$  ऐसी सम्मिश्र संख्याएँ हैं कि  $\frac{z_1 - 2z_2}{2 - z_1 z_2}$  एकमापांकी है तथा  $z_2$  एकमापांकी नहीं है, तो बिंदु  $z_1$  स्थित है :

- (1)  $x$ -अक्ष के समांतर एक रेखा पर।
- (2)  $y$ -अक्ष के समांतर एक रेखा पर।
- (3) 2 त्रिज्या वाले वृत्त पर।
- (4)  $\sqrt{2}$  त्रिज्या वाले वृत्त पर।

63. माना  $\alpha$  तथा  $\beta$  द्विघात समीकरण  $x^2 - 6x - 2 = 0$  के मूल हैं। यदि  $n \geq 1$  के लिए,  $a_n = \alpha^n - \beta^n$  है, तो  $\frac{a_{10} - 2a_8}{2a_9}$  का मान है :

- (1) 6
- (2) -6
- (3) 3
- (4) -3



64. If  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ a & 2 & b \end{bmatrix}$  is a matrix satisfying

the equation  $AA^T = 9I$ , where  $I$  is  $3 \times 3$  identity matrix, then the ordered pair  $(a, b)$  is equal to :

- (1)  $(2, -1)$
- (2)  $(-2, 1)$
- (3)  $(2, 1)$
- (4)  $(-2, -1)$

65. The set of all values of  $\lambda$  for which the system of linear equations :

$$2x_1 - 2x_2 + x_3 = \lambda x_1$$

$$2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = \lambda x_2$$

$$-x_1 + 2x_2 = \lambda x_3$$

has a non-trivial solution,

- (1) is an empty set.
- (2) is a singleton.
- (3) contains two elements.
- (4) contains more than two elements.

66. The number of integers greater than 6,000 that can be formed, using the digits 3, 5, 6, 7 and 8, without repetition, is :

- (1) 216
- (2) 192
- (3) 120
- (4) 72

64. यदि  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ a & 2 & b \end{bmatrix}$  एक ऐसा आव्यूह है जो

आव्यूह समीकरण  $AA^T = 9I$ , को संतुष्ट करता है, जहाँ  $I$ ,  $3 \times 3$  का तत्समक आव्यूह है, तो क्रमित युग्म  $(a, b)$  का मान है :

- (1)  $(2, -1)$
- (2)  $(-2, 1)$
- (3)  $(2, 1)$
- (4)  $(-2, -1)$

65.  $\lambda$  के सभी मानों का समुच्चय, जिनके लिए रैखिक समीकरण निकाय

$$2x_1 - 2x_2 + x_3 = \lambda x_1$$

$$2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = \lambda x_2$$

$$-x_1 + 2x_2 = \lambda x_3$$

का एक अतुच्छ हल है,

- (1) एक रिक्त समुच्चय है।
- (2) एक एकल समुच्चय है।
- (3) में दो अवयव हैं।
- (4) में दो से अधिक अवयव हैं।

66. अंकों 3, 5, 6, 7 तथा 8 के प्रयोग से, बिना दोहराये, बने वाले 6,000 से बड़े पूर्णांकों की संख्या है :

- (1) 216
- (2) 192
- (3) 120
- (4) 72

67. The sum of coefficients of integral powers of  $x$  in the binomial expansion of  $(1 - 2\sqrt{x})^{50}$  is :

(1)  $\frac{1}{2}(3^{50} + 1)$

(2)  $\frac{1}{2}(3^{50})$

(3)  $\frac{1}{2}(3^{50} - 1)$

(4)  $\frac{1}{2}(2^{50} + 1)$

68. If  $m$  is the A.M. of two distinct real numbers  $l$  and  $n$  ( $l, n > 1$ ) and  $G_1, G_2$  and  $G_3$  are three geometric means between  $l$  and  $n$ , then  $G_1^4 + 2G_2^4 + G_3^4$  equals.

(1)  $4 l^2 mn$

(2)  $4 lm^2 n$

(3)  $4 lmn^2$

(4)  $4 l^2 m^2 n^2$

69. The sum of first 9 terms of the series  $\frac{1^3}{1} + \frac{1^3 + 2^3}{1+3} + \frac{1^3 + 2^3 + 3^3}{1+3+5} + \dots$  is :

(1) 71

(2) 96

(3) 142

(4) 192

67.  $(1 - 2\sqrt{x})^{50}$  के द्विपद प्रसार में  $x$  की पूर्णांकिय घातों के गुणांकों का योग है :

(1)  $\frac{1}{2}(3^{50} + 1)$

(2)  $\frac{1}{2}(3^{50})$

(3)  $\frac{1}{2}(3^{50} - 1)$

(4)  $\frac{1}{2}(2^{50} + 1)$

68. यदि दो विभिन्न वास्तविक संख्याओं  $l$  तथा  $n$  ( $l, n > 1$ ) का समांतर माध्य (A.M.)  $m$  है और  $l$  तथा  $n$  के बीच तीन गुणोत्तर माध्य (G.M.)  $G_1, G_2$  तथा  $G_3$  हैं, तो  $G_1^4 + 2G_2^4 + G_3^4$  बराबर है :

(1)  $4 l^2 mn$

(2)  $4 lm^2 n$

(3)  $4 lmn^2$

(4)  $4 l^2 m^2 n^2$

69. श्रेणी  $\frac{1^3}{1} + \frac{1^3 + 2^3}{1+3} + \frac{1^3 + 2^3 + 3^3}{1+3+5} + \dots$  के प्रथम 9 पदों का योग है :

(1) 71

(2) 96

(3) 142

(4) 192

70.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos 2x)(3 + \cos x)}{x \tan 4x}$  is equal to :

- (1) 4
- (2) 3
- (3) 2
- (4)  $\frac{1}{2}$

71. If the function.

$$g(x) = \begin{cases} k\sqrt{x+1} & , 0 \leq x \leq 3 \\ mx+2 & , 3 < x \leq 5 \end{cases}$$

is differentiable, then the value of  $k+m$  is :

- (1) 2
- (2)  $\frac{16}{5}$
- (3)  $\frac{10}{3}$
- (4) 4

72. The normal to the curve,  $x^2 + 2xy - 3y^2 = 0$ , at  $(1, 1)$  :

- (1) does not meet the curve again.
- (2) meets the curve again in the second quadrant.
- (3) meets the curve again in the third quadrant.
- (4) meets the curve again in the fourth quadrant.

70.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos 2x)(3 + \cos x)}{x \tan 4x}$  बराबर है :

- (1) 4
- (2) 3
- (3) 2
- (4)  $\frac{1}{2}$

71. यदि फलन

$$g(x) = \begin{cases} k\sqrt{x+1} & , 0 \leq x \leq 3 \\ mx+2 & , 3 < x \leq 5 \end{cases}$$

अवकलनीय है, तो  $k+m$  का मान है :

- (1) 2
- (2)  $\frac{16}{5}$
- (3)  $\frac{10}{3}$
- (4) 4

72. वक्र  $x^2 + 2xy - 3y^2 = 0$  के बिंदु  $(1, 1)$  पर अभिलम्ब :

- (1) वक्र को दोबारा नहीं मिलता।
- (2) वक्र को दोबारा द्वितीय चतुर्थांश में मिलता है।
- (3) वक्र को दोबारा तृतीय चतुर्थांश में मिलता है।
- (4) वक्र को दोबारा चतुर्थ चतुर्थांश में मिलता है।

73. Let  $f(x)$  be a polynomial of degree four having extreme values at  $x=1$  and  $x=2$ .

If  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ 1 + \frac{f(x)}{x^2} \right] = 3$ , then  $f(2)$  is equal

to :

- (1) -8
- (2) -4
- (3) 0
- (4) 4

74. The integral  $\int \frac{dx}{x^2(x^4 + 1)^{3/4}}$  equals :

- (1)  $\left( \frac{x^4 + 1}{x^4} \right)^{1/4} + c$
- (2)  $(x^4 + 1)^{1/4} + c$
- (3)  $-(x^4 + 1)^{1/4} + c$
- (4)  $-\left( \frac{x^4 + 1}{x^4} \right)^{1/4} + c$

75. The integral

$$\int_2^4 \frac{\log x^2}{\log x^2 + \log (36 - 12x + x^2)} dx$$

is equal to :

- (1) 2
- (2) 4
- (3) 1
- (4) 6

73. माना  $f(x)$  घात 4 का एक बहुपद है जिसके  $x=1$  तथा  $x=2$  पर चरम मान हैं। यदि

$\lim_{x \rightarrow 0} \left[ 1 + \frac{f(x)}{x^2} \right] = 3$  है, तो  $f(2)$  बराबर है :

- (1) -8
- (2) -4
- (3) 0
- (4) 4

74. समाकल  $\int \frac{dx}{x^2(x^4 + 1)^{3/4}}$  बराबर है :

- (1)  $\left( \frac{x^4 + 1}{x^4} \right)^{1/4} + c$
- (2)  $(x^4 + 1)^{1/4} + c$
- (3)  $-(x^4 + 1)^{1/4} + c$
- (4)  $-\left( \frac{x^4 + 1}{x^4} \right)^{1/4} + c$

75. समाकल

$$\int_2^4 \frac{\log x^2}{\log x^2 + \log (36 - 12x + x^2)} dx$$

बराबर है :

- (1) 2
- (2) 4
- (3) 1
- (4) 6



76. The area (in sq. units) of the region described by

$$\{(x, y) : y^2 \leq 2x \text{ and } y \geq 4x - 1\} \text{ is :}$$

(1)  $\frac{7}{32}$

(2)  $\frac{5}{64}$

(3)  $\frac{15}{64}$

(4)  $\frac{9}{32}$

77. Let  $y(x)$  be the solution of the differential equation

$$(x \log x) \frac{dy}{dx} + y = 2x \log x, (x \geq 1).$$

Then  $y(e)$  is equal to :

(1)  $e$

(2)  $0$

(3)  $2$

(4)  $2e$

78. The number of points, having both co-ordinates as integers, that lie in the interior of the triangle with vertices  $(0, 0)$ ,  $(0, 41)$  and  $(41, 0)$ , is :

(1) 901

(2) 861

(3) 820

(4) 780

76.  $\{(x, y) : y^2 \leq 2x \text{ तथा } y \geq 4x - 1\}$  द्वारा परिभाषित क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों) में है :

(1)  $\frac{7}{32}$

(2)  $\frac{5}{64}$

(3)  $\frac{15}{64}$

(4)  $\frac{9}{32}$

77. माना अवकल समीकरण

$$(x \log x) \frac{dy}{dx} + y = 2x \log x, (x \geq 1)$$

का हल  $y(x)$  है, तो  $y(e)$  बराबर है :

(1)  $e$

(2)  $0$

(3)  $2$

(4)  $2e$

78. त्रिभुज, जिसके शीर्ष  $(0, 0)$ ,  $(0, 41)$  तथा  $(41, 0)$  हैं, के आंतरिक भाग में स्थित उन बिंदुओं की संख्या जिनके दोनों निर्देशांक पूर्णांक हैं, है :

(1) 901

(2) 861

(3) 820

(4) 780

79. Locus of the image of the point (2, 3) in the line  $(2x - 3y + 4) + k(x - 2y + 3) = 0$ ,  $k \in \mathbf{R}$ , is a :
- (1) straight line parallel to  $x$ -axis.
  - (2) straight line parallel to  $y$ -axis.
  - (3) circle of radius  $\sqrt{2}$ .
  - (4) circle of radius  $\sqrt{3}$ .
79. बिंदु (2, 3) के रेखा  $(2x - 3y + 4) + k(x - 2y + 3) = 0$ ,  $k \in \mathbf{R}$  में प्रतिबिंब का बिंदुपथ एक :
- (1)  $x$ -अक्ष के समांतर रेखा है।
  - (2)  $y$ -अक्ष के समांतर रेखा है।
  - (3)  $\sqrt{2}$  त्रिज्या का वृत्त है।
  - (4)  $\sqrt{3}$  त्रिज्या का वृत्त है।
80. The number of common tangents to the circles  $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$  and  $x^2 + y^2 + 6x + 18y + 26 = 0$ , is :
- (1) 1
  - (2) 2
  - (3) 3
  - (4) 4
80. वृत्तों  $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$  तथा  $x^2 + y^2 + 6x + 18y + 26 = 0$  को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है :
- (1) 1
  - (2) 2
  - (3) 3
  - (4) 4
81. The area (in sq. units) of the quadrilateral formed by the tangents at the end points of the latera recta to the ellipse  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ , is :
- (1)  $\frac{27}{4}$
  - (2) 18
  - (3)  $\frac{27}{2}$
  - (4) 27
81. दीर्घवृत्त  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$  के नाभिलम्बों के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) है :
- (1)  $\frac{27}{4}$
  - (2) 18
  - (3)  $\frac{27}{2}$
  - (4) 27
82. Let O be the vertex and Q be any point on the parabola,  $x^2 = 8y$ . If the point P divides the line segment OQ internally in the ratio 1 : 3, then the locus of P is :
- (1)  $x^2 = y$
  - (2)  $y^2 = x$
  - (3)  $y^2 = 2x$
  - (4)  $x^2 = 2y$
82. माना परवलय  $x^2 = 8y$  का शीर्ष O तथा उस पर कोई बिंदु Q है। यदि बिंदु P, रेखाखंड OQ को 1 : 3 के आंतरिक अनुपात में बाँटता है, तो P का बिंदुपथ है :
- (1)  $x^2 = y$
  - (2)  $y^2 = x$
  - (3)  $y^2 = 2x$
  - (4)  $x^2 = 2y$

83. The distance of the point (1, 0, 2) from the point of intersection of the line  $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{12}$  and the plane  $x-y+z=16$ , is :

- (1)  $2\sqrt{14}$
- (2) 8
- (3)  $3\sqrt{21}$
- (4) 13

84. The equation of the plane containing the line  $2x-5y+z=3$ ;  $x+y+4z=5$ , and parallel to the plane,  $x+3y+6z=1$ , is :

- (1)  $2x+6y+12z=13$
- (2)  $x+3y+6z=-7$
- (3)  $x+3y+6z=7$
- (4)  $2x+6y+12z=-13$

85. Let  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  and  $\vec{c}$  be three non-zero vectors such that no two of them are collinear and  $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \frac{1}{3} |\vec{b}| |\vec{c}| \vec{a}$ . If  $\theta$  is the angle between vectors  $\vec{b}$  and  $\vec{c}$ , then a value of  $\sin \theta$  is :

- (1)  $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
- (2)  $\frac{-\sqrt{2}}{3}$
- (3)  $\frac{2}{3}$
- (4)  $\frac{-2\sqrt{3}}{3}$

83. रेखा  $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{12}$  तथा समतल  $x-y+z=16$  के प्रतिच्छेद बिंदु की, बिंदु (1, 0, 2)

से दूरी है :

- (1)  $2\sqrt{14}$
- (2) 8
- (3)  $3\sqrt{21}$
- (4) 13

84. रेखा  $2x-5y+z=3$ ,  $x+y+4z=5$  को अंतर्विष्ट करने वाले समतल, जो समतल  $x+3y+6z=1$  के समांतर है, का समीकरण है :

- (1)  $2x+6y+12z=13$
- (2)  $x+3y+6z=-7$
- (3)  $x+3y+6z=7$
- (4)  $2x+6y+12z=-13$

85. माना  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  तथा  $\vec{c}$  तीन शून्येतर ऐसे सदिश हैं कि उनमें से कोई दो संरेख नहीं हैं तथा

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \frac{1}{3} |\vec{b}| |\vec{c}| \vec{a} \text{ है। यदि सदिशों}$$

$\vec{b}$  तथा  $\vec{c}$  के बीच का कोण  $\theta$  है, तो  $\sin \theta$  का एक मान है :

- (1)  $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
- (2)  $\frac{-\sqrt{2}}{3}$
- (3)  $\frac{2}{3}$
- (4)  $\frac{-2\sqrt{3}}{3}$

86. If 12 identical balls are to be placed in 3 identical boxes, then the probability that one of the boxes contains exactly 3 balls is :
- (1)  $\frac{55}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{11}$   
 (2)  $55 \left(\frac{2}{3}\right)^{10}$   
 (3)  $220 \left(\frac{1}{3}\right)^{12}$   
 (4)  $22 \left(\frac{1}{3}\right)^{11}$
87. The mean of the data set comprising of 16 observations is 16. If one of the observation valued 16 is deleted and three new observations valued 3, 4 and 5 are added to the data, then the mean of the resultant data, is :
- (1) 16.8  
 (2) 16.0  
 (3) 15.8  
 (4) 14.0
88. If the angles of elevation of the top of a tower from three collinear points A, B and C, on a line leading to the foot of the tower, are  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  and  $60^\circ$  respectively, then the ratio, AB : BC, is :
- (1)  $\sqrt{3} : 1$   
 (2)  $\sqrt{3} : \sqrt{2}$   
 (3)  $1 : \sqrt{3}$   
 (4)  $2 : 3$
86. यदि 12 एक जैसी गेंदें, 3 एक जैसे बक्सों में रखी जाती हैं, तो इनमें से एक बक्से में ठीक 3 गेंदें होने की प्रायिकता है :
- (1)  $\frac{55}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{11}$   
 (2)  $55 \left(\frac{2}{3}\right)^{10}$   
 (3)  $220 \left(\frac{1}{3}\right)^{12}$   
 (4)  $22 \left(\frac{1}{3}\right)^{11}$
87. 16 प्रेक्षणों वाले आँकड़ों का माध्य 16 है। यदि एक प्रेक्षण जिसका मान 16 है, को हटा कर, 3 नये प्रेक्षण जिनके मान 3, 4 तथा 5 हैं, आँकड़ों में मिला दिये जाते हैं, तो नये आँकड़ों का माध्य है :
- (1) 16.8  
 (2) 16.0  
 (3) 15.8  
 (4) 14.0
88. तीन सररेख बिंदुओं A, B तथा C, एक ऐसी रेखा पर स्थित हैं जो एक मीनार के पाद की दिशा में ले जाती है, से एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  तथा  $60^\circ$  हैं, तो AB : BC का अनुपात है :
- (1)  $\sqrt{3} : 1$   
 (2)  $\sqrt{3} : \sqrt{2}$   
 (3)  $1 : \sqrt{3}$   
 (4)  $2 : 3$



89. Let

$$\tan^{-1} y = \tan^{-1} x + \tan^{-1} \left( \frac{2x}{1-x^2} \right),$$

where  $|x| < \frac{1}{\sqrt{3}}$ . Then a value of  $y$  is :

(1)  $\frac{3x - x^3}{1 - 3x^2}$

(2)  $\frac{3x + x^3}{1 - 3x^2}$

(3)  $\frac{3x - x^3}{1 + 3x^2}$

(4)  $\frac{3x + x^3}{1 + 3x^2}$

90. The negation of  $\sim s \vee (\sim r \wedge s)$  is equivalent to :

(1)  $s \wedge \sim r$

(2)  $s \wedge (r \wedge \sim s)$

(3)  $s \vee (r \vee \sim s)$

(4)  $s \wedge r$

- o o o -

89. माना

$$\tan^{-1} y = \tan^{-1} x + \tan^{-1} \left( \frac{2x}{1-x^2} \right),$$

जहाँ  $|x| < \frac{1}{\sqrt{3}}$  है, तो  $y$  का एक मान है :

(1)  $\frac{3x - x^3}{1 - 3x^2}$

(2)  $\frac{3x + x^3}{1 - 3x^2}$

(3)  $\frac{3x - x^3}{1 + 3x^2}$

(4)  $\frac{3x + x^3}{1 + 3x^2}$

90.  $\sim s \vee (\sim r \wedge s)$  का निषेध समतुल्य है :

(1)  $s \wedge \sim r$

(2)  $s \wedge (r \wedge \sim s)$

(3)  $s \vee (r \vee \sim s)$

(4)  $s \wedge r$

- o o o -

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

**ANSWER KEY JEE (MAIN) – 2015 OFFLINE EXAMINATION**

| SET A  |         |        |           |        |       |
|--------|---------|--------|-----------|--------|-------|
| Q. No. | Physics | Q. No. | Chemistry | Q. No. | Maths |
| 1      | 3       | 31     | 4         | 61     | 1     |
| 2      | 2       | 32     | 1         | 62     | 3     |
| 3      | 3       | 33     | 3         | 63     | 3     |
| 4      | 3       | 34     | 4         | 64     | 4     |
| 5      | 2       | 35     | 4         | 65     | 3     |
| 6      | 3       | 36     | 2         | 66     | 2     |
| 7      | 2       | 37     | 2         | 67     | 1     |
| 8      | 1       | 38     | 2         | 68     | 2     |
| 9      | 3       | 39     | 1         | 69     | 2     |
| 10     | *       | 40     | 1         | 70     | 3     |
| 11     | 3       | 41     | 3         | 71     | 1     |
| 12     | 2       | 42     | 4         | 72     | 4     |
| 13     | 2       | 43     | 1         | 73     | 3     |
| 14     | 1       | 44     | 2         | 74     | 4     |
| 15     | #       | 45     | 4         | 75     | 3     |
| 16     | 2       | 46     | 2         | 76     | 4     |
| 17     | 4       | 47     | 4         | 77     | 3     |
| 18     | 3       | 48     | 2         | 78     | 4     |
| 19     | 4       | 49     | 3         | 79     | 3     |
| 20     | 2       | 50     | 1         | 80     | 3     |
| 21     | 3       | 51     | 1         | 81     | 4     |
| 22     | 4       | 52     | 1         | 82     | 4     |
| 23     | 2       | 53     | 2         | 83     | 4     |
| 24     | 1       | 54     | 4         | 84     | 3     |
| 25     | 4       | 55     | 4         | 85     | 1     |
| 26     | 2       | 56     | 3         | 86     | 1     |
| 27     | 1       | 57     | 2         | 87     | 4     |
| 28     | 3       | 58     | 1         | 88     | 1     |
| 29     | 3       | 59     | 3         | 89     | 1     |
| 30     | 1       | 60     | 1         | 90     | 4     |

**Note:** \* denotes that the questions/options are not correct so 4 marks against such question have been awarded to all the candidates appeared in the examination on 4<sup>th</sup> April 2015.

# denotes that question no. 15 (SET A) has two correct options i.e. 3 & 4 while question no. 78 (SET B) has two correct options i.e. 2 & 3.

This booklet contains 40 printed pages.

इस पुस्तिका में मुद्रित पृष्ठ 40 हैं।

**LMN**

No.:

**PAPER - 1 : PHYSICS, CHEMISTRY & MATHEMATICS**

**प्रश्नपुस्तिका - 1 : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित**

Test Booklet Code  
परीक्षा पुस्तिका संकेत

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

**Important Instructions:**

**महत्वपूर्ण निर्देश:**

1. Immediately fill in the particulars on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The Answer Sheet is kept inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully.
3. The test is of 3 hours duration.
4. The Test Booklet consists of 90 questions. The maximum marks are 360.
5. There are three parts in the question paper A, B, C consisting of Physics, Chemistry and Mathematics having 30 questions in each part of equal weightage. Each question is allotted 4 (four) marks for correct response.
6. Candidates will be awarded marks as stated above in instruction No. 5 for correct response of each question.  $\frac{1}{4}$  (one fourth) marks will be deducted for indicating incorrect response of each question. No deduction from the total score will be made if no response is indicated for an item in the answer sheet.
7. There is only one correct response for each question. Filling up more than one response in any question will be treated as wrong response and marks for wrong response will be deducted accordingly as per instruction 6 above.
8. Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars/mark responses on Side-1 and Side-2 of the Answer Sheet. Use of pencil is strictly prohibited.
9. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. except the Admit Card inside the examination room/hall.
10. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only. This space is given at the bottom of each page and in one page (i.e. Page 39) at the end of the booklet.
11. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
12. The CODE for this Booklet is **A**. Make sure that the CODE printed on Side-2 of the Answer Sheet and also tally the serial number of the Test Booklet and Answer Sheet are the same as that on this booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.
13. Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet.

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले / काले बॉल प्वाइंट पेन से तत्काल भरें। पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर सावधानीपूर्वक विवरण भरें।
3. परीक्षा को अवधि 3 घंटे है।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं। अधिकतम अंक 360 हैं।
5. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग A, B, C हैं, जिसके प्रत्येक भाग में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 4 (चार) अंक निर्धारित किये गये हैं।
6. अभ्यर्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए उपरोक्त निर्देशन संख्या 5 के निर्देशानुसार अंक दिये जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिये  $\frac{1}{4}$  अंक भाग काट लिया जायेगा। यदि उत्तर पत्र में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया हो तो कुल प्राप्तांक से कोई कटौती नहीं की जायेगी।
7. प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर है। एक से अधिक उत्तर देने पर उसे गलत उत्तर माना जायेगा और उपरोक्त निर्देश 6 के अनुसार अंक काट लिये जायेंगे।
8. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर चाँदित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
9. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में प्रवेश कार्ड के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मुद्रित या हस्तलिखित, कागज की पर्चियाँ, पेजर, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
10. एक कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिए। यह जगह प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे की ओर और पुस्तिका के अंत में एक पृष्ठ पर (पृष्ठ 39) दी गई है।
11. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
12. इस पुस्तिका का संकेत **A** है। यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के पृष्ठ-2 पर छपे संकेत से मिलाता है और यह भी सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा पुस्तिका, उत्तर पत्र पर क्रम संख्या मिलती है। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को सूचना अवगत कराएँ।
13. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।

Name of the Candidate (in Capital letters) : \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Roll Number : in figures

अनुक्रमांक : अंकों में

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

: in words

: शब्दों में

Examination Centre Number :

परीक्षा केन्द्र नम्बर :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Name of Examination Centre (in Capital letters) : \_\_\_\_\_

परीक्षा केन्द्र का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

1. Invigilator's Signature : \_\_\_\_\_

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

2. Invigilator's Signature : \_\_\_\_\_

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

**A**